



## ढाई करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला एक और अभियुक्त दबोचा

- क्राइम ब्रांच और जनपद बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता
- क्राइम ब्रांच तीन अभियुक्तों को पहले ही दबोच चुकी है
- 13खातों में दो करोड़ 45 लाख 832 रुपए किए गए थे ट्रांसफर
- एचडीएफसी की मुंबई शाखा में है कंपनी का लोन खाता
- नाइजीरियन अभियुक्त के काफी करीब है क्राइम ब्रांच

**कानपुर।** एक निजी कंपनी की ईमेल आईडी हैक कर साइबर ठगों ने कंपनी के ढाई करोड़ रुपए अलग-अलग राज्यों में खोलें 13 खातों में स्थानांतरित कर दिए हैं। थाना स्वरूप नगर स्थित कंपनी गणेश इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड के जीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने ठगी करने वाले तीन अभियुक्तों को पहले ही हिरासत में ले लिया था। मंगलवार को एक और अभियुक्त को बरेली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया। अभियुक्त के पास से 27 लाख नकद और 30 लाख रुपये खाते में मिले हैं। पूछताछ में जिन बैंक अकाउंट की जानकारी दी उनको क्राइम ब्रांच ने ट्रांजेक्शन होल्ड करा दिया है।

### यह है मामला

थाना स्वरूप नगर स्थित गणेश इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लोन खाता एचडीएफसी बैंक की मुंबई शाखा में है। कंपनी द्वारा किसी भी फर्म को पैसा ट्रांसफर करने के लिए ई-मेल किया जाता था। उस ईमेल में दिए गए खातों पर बैंक द्वारा पैसे भेज दिए जाते थे। बीती 17 अगस्त को बैंक को एक ई-मेल मिला जिसमें 13 खातों का ब्यौरा लिखा था। बैंक द्वारा पूर्व को तरह इन खातों में 2 करोड़ 45 लाख 832 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। 25 अगस्त को कंपनी के जीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था।

### चौथा अभियुक्त पकड़ा

क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्व में पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान तिलक नगर दिल्ली निवासी महिला शहनाज मोहम्मद, मुंबई निवासी मोहम्मद अजमेरी और साजिद अनीशदीक अली खान के रूप में हुई थी। इसके बाद मंगलवार को बरेली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने चौथे अभियुक्त रुकसाद निवासी गोटियां कस्बा जनपद बरेली को दबोचा। इसके पास से 27 लाख की नकदी और 30 लाख रुपये खाते में मिले हैं।

ईमेल हैक करने वाले मामले में चौथे आरोपित को बरेली पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया है उसके पास से 27 लाख नकद और बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस नाइजीरियन अभियुक्त के काफी करीब है जल्द ही उसके भी पकड़े जाने की संभावना है।-

**सलमान ताज पाटिल, डीसीपी क्राइम ।**